



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 माघ 1940 (श10)  
(सं० पटना 126) पटना, बुधवार 30 जनवरी 2019

---

सं० 21/वी.पी.एस.सी.-06/2013 सा0प्र0-1221  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
29 जनवरी 2019

विषय:— बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रधान/सह परीक्षकों तथा आयोग कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रविवार/अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक किये गये कार्यों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय की दर में संशोधन/वृद्धि का प्रस्ताव।

राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रधान/सह परीक्षकों तथा आयोग कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रविवार/ अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक किये गये कार्यों के लिए पारिश्रमिक/ मानदेय की दर में निम्नवत् वृद्धि करने का निर्णय लिया है :-

- (I) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच करने वाले मुख्य परीक्षक/सह परीक्षकों के पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि:—

क्र. सं.	विषय/मद का विवरण	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में भुगतान की जा रही दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1.	A. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु (विषयनिष्ठ विषयों के) परीक्षक B. मुख्य परीक्षक	रुपये 50/- प्रति उत्तर पुस्तिका (समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा।) I प्रति सह परीक्षक रुपये 400/- II मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 15 प्रतिशत की पुनर्जाँच के लिए रु 20/- प्रति उत्तर पुस्तिका III सह परीक्षकों के पारिश्रमिक की औसत राशि	रुपये 100/- प्रति उत्तर पुस्तिका (समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा।) I प्रति सह परीक्षक रुपये 800/- II मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 15 प्रतिशत की पुनर्जाँच के लिए रु 40/- प्रति उत्तर पुस्तिका III सह परीक्षकों के पारिश्रमिक की औसत राशि
2.	C. सामान्य अध्ययन/ सामान्य ज्ञान I परीक्षक के लिए	I रुपये 72/- प्रति उत्तर पुस्तिका (तीन परीक्षकों के बीच चौबीस-चौबीस रुपये की दर से खंडों में रहने पर) यदि एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो रुपये 50/- प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किया जायेगा।	I रुपये 144/- प्रति उत्तर पुस्तिका (तीन परीक्षकों के बीच अड़तालिस-अड़तालिस रुपये की दर से खंडों में रहने पर) यदि एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो रुपये 100/- प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किया जायेगा।
3.	II मुख्य परीक्षक के लिए	II कॉलम 01 (B) के अनुसार	II कॉलम 01 (B) के अनुसार
4.	D परीक्षकों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक	I रुपये 1600/- (एक हजार छः सौ)	I रुपये 3200/- (तीन हजार दो सौ)

(II) आयोग-कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय-अवधि के पूर्व एवं बाद में तथा रविवार/ अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक कार्य करने की स्थिति में अनुमान्य मानदेय :-

क्र. सं.	पदनाम	बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय द्वारा वर्तमान में भुगतान की जा रही दर	कार्यालय-अवधि के पूर्व एवं बाद में कार्य करने पर मानदेय की दर (यथावत)	रविवार एवं अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक कार्य करने की स्थिति में मानदेय की दर
1.	पदाधिकारी वरीय	रु. 1000/- प्रतिदिन	रु. 1000/- प्रतिदिन	रु. 1400/- प्रतिदिन
2.	प्रशखा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारी	रु. 700/- प्रतिदिन	रु. 700/- प्रतिदिन	रु. 980/- प्रतिदिन
3.	सहायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी (चालक सहित)	रु. 500/- प्रतिदिन	रु. 500/- प्रतिदिन	रु. 700/- प्रतिदिन
4.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	रु. 300/- प्रतिदिन	रु. 300/- प्रतिदिन	रु. 420/- प्रतिदिन

आदेश :-

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
हिमांशु कुमार राय,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 126-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>